

गैर आधार आधारित एलपीजी सब्सिडी अंतरण हेतु आदेश
(एलपीजी वितरक को प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

डिस्ट्रीब्यूटर (नाम) _____ जिला _____ राज्य _____

आयत ठं .(आईओसीएल/बीपीसीएल/एचपीसीएल)

विषय : एनईएफटी/एनएसीएच के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए बैंक खाता विवरण अद्यतन करने हेतु प्राधिकरण।

मैं, एतदद्वारा पुष्टि ॥ रता हूँ यि मेरे पास हे वल ए ही सब्सिडी प्राप्त ॥ नेक्षण है। मैं यह भी पुष्टि ॥ रता हूँ यि मेरे पास आधार नंबर नहीं है और मेरे बैंक खाता में एनईएफटी/एनएसीएच हे माध्यम से एलपीजी स्थाई अग्रिम एवं रिफिल सब्सिडी हे लिए देय राशि हे भुगतान हे अपने विहार यि भी पुष्टि ॥ रता हूँ। मैं मेरी ओएमसी ॥ ०० मेरे बैंक से मेरे बैंक/आधार विवरण ॥ ी पुष्टि लेने हे लिए प्राधिकृत ॥ रता हूँ और इस योजना हे लिए मेरे बैंक ॥ ०० मेरे बैंक खाता (नंबर, नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि) विवरण मेरी ओ एम सी ॥ ०० देने हे लिए भी प्राधिकृत ॥ रता हूँ। मेरे एलपीजी ॥ नेक्षण एवं बैंक खाता विवरण निम्नवत है:

भाग ए : एलपीजी कनेक्शन विवरण (वितरक ओएमसी से प्राप्त कैश मेमों या डीजीसीसी बुक या प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)

एलपीजी उपभोक्ता नंबर																		
17 अं०० ॥ १ एलपीजी आईडी*(x में पूछ न भरें)	X					X				X					X			
एलपीजी ॥ नेक्षण में दिखाए गए हे अनुसार नाम (बड़े अक्षरों में)																		
मोबाइल नंबर	+	९	१															

* पूर्ण पर्याय, मोबाइल नंबर दें, यदि आपहे पास मोबाइल नंबर नहीं हैं आप अपने परिवार हे पि स सदस्य ॥ १ मोबाइल नंबर दे सकते हैं। पूर्ण पर्याय, ध्यान रखें हि आप द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर ॥ ०० एलपीजी डाटाबेस में अद्यतन ॥ र दिया जाएगा और आप द्वारा पहले दिए गए (यदि ॥ ००२५ हैं) मोबाइल नंबर ॥ ०० हटा दिया जाएगा।

भाग बी : मेरे बैंक खाते का विवरण (पास बुक या रद्द चेक की प्रति संलग्न करें) :

उसपे खाते पर उपभोक्ता ॥ १ नाम (बड़े अक्षरों में)	पहला नाम	बीच ॥ १ नाम	अंतिम नाम
उपभोक्ता ॥ १ बैंक खाता नंबर			
उपभोक्ता हे बैंक ॥ १ नाम			
बैंक ॥ ी शाखा ॥ १ नाम			
आईएफएससी ॥ ०२५ (11 अं०० मैं*) एमआईसीआर ॥ ०२५ (9 अं०० मैं**) यथा लागू			

* आपहे चौपा बुझ या आपहे शाखा प्रबंधण हे साथ उपलब्ध।

** यदि आपहे पास बैंक ॥ १ आईएफएससी ॥ ०२५ नहीं हैं तो एमआईसीआर ॥ ०२५ लिखें, यदि संदेह हो तो पूर्ण पर्याय अपने बैंक से संपर्क ॥ रॉनोट : भाग ए एवं बी के सभी कालम भरना अनिवार्य है।

मैं एतदद्वारा पुष्टि ॥ रता हूँ हि :

- ऊपर दिए गए तथ्य हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।
- मैं अपने पि सी परिवर्तनों से वितरण / पंगी ॥ ०० सूचित ॥ रूंगा।
- पि सी विलंब/परिवर्तन/बंदी/मेरे बैंक खाता हे निष्क्रिय होने या बैंक हे पि सी ॥ रण या उपर्युक्त सूचना हे गैर-गोपनीयता हे लिए मैं आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल/पे.एवं प्रा. गैस मंत्रालय ॥ ०० जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा।
- आगे मैं पुष्टि ॥ रता हूँ हि आज ॥ ी दिन ता मेरे पास आधार नंबर नहीं है। मुझे जैसे ही आधार नंबर मिलेगा मैं अपने वितरण ॥ ०० इसपी प्रति देण र मेरे उपभोक्ता नंबर से इस लिए ॥ रूंगा तथा इसे अपने उपर्युक्त बैंक खाते से भी लिए ॥ संगा।
- मैंने इस आवेदन हे साथ बैंक खाते हे विवरण सहित पासबुझ रद्द चौपा एं हि प्रति संलग्न पि या है।
- मैं यह भी समझता हूँ कि कोई भी गलत घोषणा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है।

स्थान : _____ दिनांक : _____ उपभोक्ता हे हस्ताक्षर _____

---<

पावती स्लिप

द्वारा गैर आधार हे श अंतरण आदेश फार्म 4 प्राप्त पि या (नाम) _____, वितरण ॥ ओएमसी से प्राप्त हे श मेमों, डीजीसीसी बुझ प्रमाणपत्र ॥ ी प्रति हे साथ खाता नंबर _____

दिनांक : _____ वितरक का मुंहर एवं हस्ताक्षर _____